

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी 2019 — माघ 30, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 13-6/2012/1/5. — राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उपरोक्त नियम में,

(1) नियम 3 के भाग (क), (ख), (ग) एवं (घ) में प्रचलित व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए तथा पूर्व संशोधनों को संकलित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

- (क)
1. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल
 2. मुख्यमंत्री
 3. उप मुख्यमंत्री/छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/प्रमुख लोक आयुक्त
 4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा
 5. मंत्रीगण/नेता प्रतिपक्ष
 6. राज्य मंत्री/विधान सभा उपाध्यक्ष
 7. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
 8. महाधिवक्ता/उप मंत्री
 9. मुख्य सचिव/राज्य सूचना आयुक्त/अध्यक्ष, राजस्व मंडल/अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, विद्युत मंडल/लोकायुक्त
 10. अपर मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 11. अध्यक्ष, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़

- (ख)
1. संसदीय सचिव
 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़
 3. मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़/अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग
 4. सदस्य, राजस्व मंडल/सदस्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
 5. राज्य के निगम/मंडल/अधिकरण व आयोगों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
 6. अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य मानव अधिकार आयोग
 7. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य अतिथि
 8. प्रमुख सचिव/सचिव/जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम) तथा जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) /संभागीय आयुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय
- (ग)
1. विशेष सचिव/विभागाध्यक्ष/पुलिस उप महानिरीक्षक/वन संरक्षक/रजिस्ट्रार, मान. उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़
 2. छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम में वाहन की पात्रता नहीं रखने वाले अधिकारियों को दिल्ली प्रवास के दौरान नगद भुगतान पर ही छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा.
- (घ)
1. राज्यपाल के एडीसी
 2. राज्यपाल महोदय के वाहन काफिले हेतु स्पेयर वाहन
 3. मुख्यमंत्री जी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/निज सचिव
 4. मुख्यमंत्री जी के वाहन काफिले हेतु स्पेयर वाहन
 5. राज्यपाल महोदय/मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा बलों हेतु तथा सुरक्षा श्रेणी के अनुसार वाहन
 6. माननीय राज्यपाल महोदय/माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास के दौरान खान-पान एवं अन्य व्यवस्था हेतु राजभवन, रायपुर से आया किचन स्टाफ को स्टेशन/एयरपोर्ट से लाने-ले जाने हेतु वाहन
 7. माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल्ली आगमन तथा प्रस्थान के समय एयरपोर्ट/रिक्वे स्टेशन से सामान लाने-ले जाने हेतु वाहन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.